

प्रेस नोट- थाना क्वार्सी, अलीगढ़

दिनांक:- 05.02.2021

फिरौती हेतु अपहरण करने वाले 05 अभियुक्त शातिर गिरफ्तार ।

थाना क्वार्सी पर दिनांक 28.01.2021 को श्रीमती मीनू चौधरी पत्नी डा 0 शीलेन्द्र सिंह निवासी साक्षी विहार गली नं02 थाना क्वार्सी, अलीगढ़ द्वारा अपने पति डा0 शैलेन्द्र सिंह की फिरौती हेतु अपहरण की सूचना दी गयी थी, जिसके आधार पर मु 0अ0सं0 99/2021 धारा 364ए भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था जिसका विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री छोटेलाल द्वारा की जा रही थी। अपहरणकर्ता बदमाशों के द्वारा फिरौती बिना दिनांक 30.01.2021 को डा0शैलेन्द्र सिंह को पुलिस के बंदूते दबाव के कारण मुक्त कर दिया गया था। उक्त घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज जी महोदय द्वारा फिरौती हेतु अपहरण घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगरश्री कुलदीप गुणावत, पुलिस अधीक्षक अपराध डा 0 श्री अरविन्द कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय श्री अनील समानियाँ के पर्यवेक्षण में टीमो का गठन कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिये प्रभारी निरीक्षक श्री छोटेलाल व थानाध्यक्ष जवाँ श्री अभय शर्मा व सर्विलास प्रभारी श्री संजीव कुमार को लगाया गया अथक प्रयासों व मेहनत से अपहरण करने वाले बदमाशों की पतारसी व सुरागरसी से घटना में शामिल सदिग्ध अभियुक्त-1 . अनुज चौधरी उर्फ अन्नू पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी राज विहार कालोनी थाना क्वार्सी जिला अलीगढ़ को पूछताछ के लिये लाया गया जिससे पूछताछ के आधार पर अभियुक्त द्वारा अनुज चौधरी द्वारा अपने अन्य साथी अनुकल्प चौहान, हिमांशू चौधरी, मोहित चौधरी, अंकित शुक्ला के नाम प्रकाश में आये जिन्हे आज दिनांक 05.02.2020 पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया है। जिनसे घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार संख्या- DL-5 CQ-4900 व डा0शीलेन्द्र सिंह का मो बाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व बैग बरामद किया गया। अभिगण से की गयी पूछताछ में घटना में अभि0 मोहित चौधरी को अपनी गर्ल्स फ्रेन्ड से भागकर शादी करने के लिये पैसो की आवश्यकता थी। जिसकी पूर्ति के लिये मोहित चौधरी द्वारा हिंमाशू उर्फ चीनी से पैसो के लिये कहा गया तो उसने कहा कि पैसे तो मेरे पास नहीं है लेकिन एक काम कर लेते है डा0 शीलेन्द्र सिंह जो साक्षी बिहार थाना क्वार्सी क्षेत्र में रहता है का फिरौती के लिए अपहरण कर लेते है जो कि सीधा साधा है जिससे 20 लाख रूपये आसानी से मिल जायेगे। फिर तीनों ने मिलकर अपने दोस्त अनुकल्प चौहान व अंकित शुक्ला के साथ मिलकर योजना बनायी। डा0 शीलेन्द्र सिंह का अपहरण करने के लिये वाहन की आवश्यकता थी तो अनुकल्प चौहान ने अपने दोस्त प्रशान्त गुप्ता उर्फ सोनू जो कि कासगंज में टैक्सी कार चलाता है। प्रशान्त गुप्ता की कार मांगकर अनुकल्प चौहान ले आया। दिनांक 28.01.2021 को सुबह 07.00 बजे मोहित चौधरी व अंकित शुक्ला तथा अनुज चौधरी तीनों अलीगढ़ आये। हिंमाशू चौधरी उर्फ चीनी, डा0शीलेन्द्र सिंह की रैकी कर रहा था। डा0 शीलेन्द्र सिंह को अपने घर से इगलास क्लीनिक पर जाते समय तमंचा लगाकर पकडकर स्विफ्ट कार में डालकर ले गये थे। गाडी मोहित चौधरी चला रहा था। अपहृत डाक्टर को अनुकल्प चौहान के गाँव अचलपुर थाना मिरहची

जनपद एटा में उसके मकान में बन्द करके रखा गया था। पुलिस की टीम सरगर्मी के साथ अपहृत की तलाश में कासगंज व एटा में जुटी हुई थी। इसी बीच अभियुक्त मोहित चौधरी ने कासगंज में पेट्रोल पम्प के पास अलीगढ़ की पुलिस जो सादे कपडों में प्राइवेट गाड़ियों से थी को पहचान लिया था। मोहित ने यह बात अपने अन्य साथियों के बताई कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा करते हुए कासगंज तक पहुंच गयी है हम किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं। अपहृत डाक्टर को मुक्त करने में ही हम सबकी भलाई है। पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण अपहृत डा० शीलेन्द्र को डर के कारण सकुशल एटा सोरो रोड पर दिनांक 30.01.2021 को समय करीब 12.00 बजे दिन गेहूं के खेतों में 200 रुपये देकर छोड़ दिया गया और यह कह दिया था कि किसी को भी बताया तो जान से हाथ धोना पड सकता है। इसके उपरान्त भी अभि० अनुज चौधरी एटा से अलीगढ़ आया और हिमाशू चौधरी उर्फ चीनी को अलीगढ़ से अपने साथ लेकर नोएडा गया। जहाँ पर डा० शीलेन्द्र सिंह के मोबाइल से फिरौती के लिये कॉल की थी। अपहरणकर्ता बदमाशों द्वारा तय जगह परी चौक नोएडा पर अपहृत डाक्टर के परिजनों को 10 लाख रुपये लेकर पहुंचे के लिए बुलाया था पुलिस की टीम सादा कपडों में सर्विलांस टीम के साथ लगी थी। अपहरणकर्ता वहाँ पर रुपया लेने नहीं आये इसके बाद बदमाशों ने कॉल करके डाक्टर के परिजनों से कहा कि आप लोग रुपये लेकर लाल कुँआ गाजियाबाद पहुँचें। डाक्टर के परिजन व पुलिस की टीम लाल कुँआ गाजियाबाद पर पहुंची तो अभियुक्त अनुज चौधरी ने कॉल करके कहा कि रुपये बीकानेर स्वीट्स के पास गड्ढे में रख दो। पुलिस द्वारा योजना के अनुसार नोटों का बैग गड्ढे में रखवा किया और आसपास सादा कपडों में कैमोफ्लाईज करके बैठ गये। परन्तु बदमाशों को शक हो गया और रुपयों का बैग लेने नहीं आये। पुलिस टीमों के द्वारा पतारसी व सुरागरसी लगातार की जा रही थी जिसके आधार पर दिनांक 05.02.2021 को आशंका के आधार पर अभियुक्त अनुज चौधरी को पूछताछ के लिए लाया गया था क्योंकि उसके बाएं पैर में पट्टी बंधी होने से पहचान हो गयी थी। अभियुक्त अनुज चौधरी से सख्ती से पूछताछ की गयी तो उसने अपने साथियों के साथ घटना का इकबाल करते हुए बताया कि हिमांशू चौधरी उर्फ चीनी व मोहित चौधरी, अनुकल्प चौहान, अंकित शुक्ला के साथ मिलकर हम लोगों ने फिरौती हेतु अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। आज सभी बदमाश उसी कार से नोएडा जा रहे थे कि पुलिस मुठभेड के दौरान डीपीएस के सामने हेतमपुर रोड पर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से 02 फायर किये गये हैं जिससे कोई हताहत नहीं हुआ।

इस प्रकार पुलिस टीमों के द्वारा अथक प्रयासों के द्वारा फिरौती हेतु अपहरण की गंभीर घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और अपहृत डाक्टर को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर अलीगढ़ की जनता निगाहें लगाए थी। घटना के अनावरण से जनता में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना जाग्रत हुई है। जिस पर श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अलग से पुलिस टीमों के पुरुष्कृत करने की घोषणा की गयी।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण---

1. अनुज चौधरी उर्फ अन्नू पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी राज विहार कालोनी थाना क्वार्सी, अलीगढ़
2. हिमांशु चौधरी उर्फ चीनी पुत्रमलखान सिंह निवासी गली नं03 साक्षी विहार थाना क्वार्सी जिला अलीगढ़
3. मोहित चौधरी पुत्र राजवीर सिंह निवासी गली नं02-शंकरविहार कालोनीथाना क्वार्सीजिला अलीगढ़
4. अनुकल्प चौहान पुत्र विजय चन्द्र चौहान निवासी दीन दयाल पुरम थाना कोतवाली कांसगंज स्थाई पता ग्राम अचलपुर थाना मिहरी जिला एटा
5. अंकित शुक्ला पुत्र अशोक कुमार शुक्ला निवासी ऑफिसर कालोनी नदरई गेटथाना कोतवाली कांसगंज जिला कासगंज

## बरामदगी विवरण---

- 1- घटना में प्रयुक्त सिफ्ट कार संख्या DL-5 CQ-4900
- 2- अपहृत डा0शीलेन्द्र सिंह का मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पर्स वबैग
- 3- तीन तमंचा 315 बोर व एक पोनिया 12 बोर व खोखा कारतूस 315 वोर एक व जिन्दा 06 कारतूस

## अपराधिक इतिहास

1. अनुज चौधरी उर्फ अन्नू पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी राज विहार कालोनी थाना क्वार्सी, अलीगढ़
  - 1.मु0अ0सं0- 99/2021 धारा 364ए, 342, 34 भादवि थाना क्वार्सी, अलीगढ़
2. हिमांशु चौधरी उर्फ चीनी पुत्रमलखान सिंह निवासी गली नं03 साक्षी विहार थाना क्वार्सी जिला अलीगढ़
  - 1.मु0अ0सं0- 99/2021 धारा 364ए, 342, 34 भादवि थाना क्वार्सी, अलीगढ़
  - 2.मु0अ0सं0 127/2021 धारा 307 भादवि ( पुलिस मुठभेड) थाना क्वार्सी, अलीगढ़
  - 3.मु0अ0सं0 131/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना क्वार्सी, अलीगढ़
3. मोहित चौधरी पुत्र राजवीर सिंह निवासी गली नं02 शंकरविहार कालोनी थाना क्वार्सी जिला अलीगढ़
  - 1.मु0अ0सं0- 99/2021 धारा 364ए, 342, 34 भादवि थाना क्वार्सी, अलीगढ़
  - 2.मु0अ0सं0 127/2021 धारा 307 भादवि पुलिस मुठभेड थाना क्वार्सी, अलीगढ़
  - 3.मु0अ0सं0 130/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना क्वार्सी, अलीगढ़
4. अनुकल्प चौहान पुत्र विजय चन्द्र चौहान निवासी दीन दयाल पुरम थाना कोतवाली कांसगंज स्थाई पता ग्राम अचलपुर थाना मिहरी जिला एटा
  - 1.मु0अ0सं0- 99/2021 धारा 364ए, 342, 34 भादवि थाना क्वार्सी, अलीगढ़
  - 2.मु0अ0सं0 127/2021 धारा 307 भादवि पुलिस मुठभेड थाना क्वार्सी, अलीगढ़
  - 3.मु0अ0सं0 128/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना क्वार्सी, अलीगढ़
  - 4.मु0अ0सं0 220/15 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली कासगंज जिला कासगंज
  - 5.मु0अ0सं0 317/18 धारा 323, 354घ, 452, 506, भादवि थाना कोतवाली कासगंज जिला कासगंज
  - 6.मु0अ0सं0 521/19 धारा 120बी, 304 वी, 201, 498ए भादवि 0 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना कोतवाली कासगंज जिला कासगंज
  - 7.मु0अ0सं0 759/2020 धारा 386, 507 भादवि थाना कोतवाली कासगंज जिला कासगंज
  - 8.मु0अ0सं0 949/19 धारा 307, 504 भादवि थाना कोतवाली कासगंज जिला कासगंज
5. अंकित शुक्ला पुत्र अशोक कुमार शुक्ला निवासी ऑफिसर कालोनी नदरई गेटथाना कोतवाली कांसगंज जिला कासगंज
  - 1.मु0अ0सं0 99/2021 धारा 364ए, 342, 34 भादवि थाना क्वार्सी, अलीगढ़
  - 2.मु0अ0सं0 127/2021 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना क्वार्सी, अलीगढ़
  - 3.मु0अ0सं0- 129/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना क्वार्सी, अलीगढ़

पुलिस टीम के अधि0/कर्म0गण का विवरण:-

- 1- श्री छोटे लाल प्रभारी निरीक्षक थाना क्वार्सी अलीगढ़
- 2- श्री अभय शर्मा थानाध्यक्ष जवा अलीगढ़
- 3- वरि0उ0नि0 श्री चंचल सिरोही थाना क्वार्सी अलीगढ़,
- 4- उ0नि0 श्री रीतेश कुमार एसओजी अलीगढ़,
- 5- उ0नि0 श्री संजीव कुमार सर्विलांस प्रभारी, अलीगढ़
- 6- उ0नि0 श्री विजय चौहान थाना क्वार्सी, अलीगढ़
- 7- उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह थाना क्वार्सी, अलीगढ़
- 8- उ0नि0 श्री संदीप थाना गांधीपार्क, अलीगढ़
- 9- है0का0 688 बृजेश रावत थाना क्वार्सी, अलीगढ़
- 10- है0का0 687 मोहन लाल थाना क्वार्सी, अलीगढ़
- 11- का0 1135 अंकित कुमार थाना क्वार्सी, अलीगढ़
- 12- का0 1801 सचिन तोमर थाना क्वार्सी, अलीगढ़
- 13- है0का0 682 याकुब खाँ थाना क्वार्सी, अलीगढ़
- 14- का0 मनोज कुमार एसओजी, अलीगढ़
- 15- है0का0 राकेश कुमार एसओजी, अलीगढ़
- 16- है0का0 दुर्वे विजय एसओजी, अलीगढ़
- 17- का0 ज्ञानवीर सिंह एसओजी, अलीगढ़
- 18- का0 रिषू कुमार एसओजी, अलीगढ़
- 19- का0 जुलकर नैन एसओजी, अलीगढ़
- 20- है0का0 विनोद कुमार एसओजी, अलीगढ़